

# Job

## Chapter 36

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיֹּאמֶר: אֱלֹהִים וַיִּסַּךְ 1  
और-कहा एलीहू-ने और-जारी-रखा  
[H0559](#) [H0453](#) [H3254](#)

एलीहू ने बात जारी रखते हुए कहा:

כִּי-וַיֹּאמֶר: לְאֱלֹהִים מִלִּים: 2  
कि और-बताऊंगा-तुझे थोड़ा मेरे-लिए ठहर  
[H5750](#) [H2331](#) [H2191](#) [H4405](#) [H0433](#) [H3803](#)

“अय्यूब, मेरे साथ थोड़ी देर और धीरज रख। मैं तुझको दिखाऊँगा की परमेश्वर के पक्ष में अभी कहने को और है।

אֲשָׁא לְמִרְחֹק רָעִי וְיָדָע: אֶת־אֱלֹהֵי אֲדָמָה 3  
उठाऊँगा-मैं दूर-से ज्ञान-अपना धार्मिकता दूँगा और-बनानेवाले-अपने-को  
[H5375](#) [H7350](#) [H1843](#) [H6466](#) [H5414](#) [H6664](#)

मैं अपने ज्ञान को सबसे बाँटूँगा। मुझको परमेश्वर ने रचा है। check मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं उसका प्रयोग तुझको यह दिखाने के लिये करूँगा कि परमेश्वर निष्पक्ष है।

כִּי-אֲמַנָּם לֹא-שָׁקַר מְלִי-תַמִּים רַעוֹת עִמָּךְ: 4  
कि सचमुच कि नहीं झूठ शब्द-मेरे सिद्ध ज्ञानों-में तेरे-साथ  
[H0551](#) [H3808](#) [H8267](#) [H4405](#) [H8549](#) [H1844](#)

अय्यूब, तू यह निश्चय जान कि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब सत्य है। मैं बहुत विवेकी हूँ और मैं तेरे साथ हूँ।

הִן-אֵלֵי קְבִיר וְלֹא-יִמְאַס׃ כֹּבִיר לֵב: 5  
देखो ईश्वर और-नहीं शक्तिशाली तुच्छ-समझता-है शक्तिशाली हृदय-का बल  
[H2005](#) [H0410](#) [H3524](#) [H3808](#) [H5424](#) [H3524](#) [H2005](#)

“परमेश्वर शक्तिशाली है किन्तु वह लोगों से घृणा नहीं करता है। परमेश्वर सामर्थी है और विवेकपूर्ण है।

לֹא-יַחִיָּה וְיִחִיָּה רָשָׁע וּמְשַׁבֵּט עֲנִיִּים יִתֵּן: 6  
नहीं जिलाता-है दुष्ट-को और-न्याय दुख-की देता-है  
[H3808](#) [H2421](#) [H7563](#) [H4941](#) [H6041](#) [H5414](#)

परमेश्वर दुष्ट लोगों को जीने नहीं देगा और परमेश्वर सदा दीन लोगों के साथ खरा व्यवहार करता है।

לֹא-יִנָּרַע מִצְדִּיק וְיִנָּרַע מִלְּכִים לְכֹסֵא וַיִּשְׁיבֵם לְנִצָּח 7  
नहीं हटाता-है धर्मी-से और-को राजाओं-के-साथ सिंहासन-पर और-बिठाता-है-उन्हें हमेशा-के-लिए  
[H3808](#) [H1639](#) [H6662](#) [H0854](#) [H4428](#) [H3678](#) [H3427](#) [H5331](#)

וַיִּנְבְּהוּ: 8  
और-ऊँचे-होते-हैं  
[H1361](#)

वे लोग जो उचित व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। वह राजाओं के साथ उन्हें सिंहासन देता है और वे सदा आदर पाते हैं।

וְאִם-בָּזְזוּ וְאִם-בָּזְזוּ וְאִם-בָּזְזוּ 8  
और-यदि बँधे-हुए बँधे-हुए बँधे-हुए  
[H0631](#) [H3920](#) [H6040](#)

किन्तु यदि लोग दण्ड पाते हों और बेड़ियों में जकड़े हों। यदि वे पीड़ा भुगत रहे हों और संकट में हो।



18 כִּי-חַמָּה פֶּן-יִסְתַּחַבּ בְּסֶפֶק וְרַב-כֹּכַר אֶל-יִשְׂרָאֵל  
 कि क्रोध कहीं कहीं उकसाए-तुझे ठठे-से और-बड़ी फिरौती नहीं भटकाए-तुझे  
 H5186 H0408 H5496 H6435 H2534

अस्यूब, तू अपनी नकेल धन दौलत के हाथ में न दे कि वह तुझसे बुरा काम करवाये। अधिक धन के लालच से तू मूर्ख मत बन।

19 הִיִּעַרְתָּ וְשָׁוְעָה לֹא בָצָר וְכָל-מְאֲמָצִי-כֹחַ  
 क्या-क्रम-करेगी दोहाई-तेरी नहीं संकट-में और-सब प्रयासों-के शक्ति-के  
 H3981 H3605 H1222 H3808 H7769

तू ये जान ले कि अब न तो तेरा समूचा धन तेरी सहायता कर सकता है और न ही शक्तिशाली व्यक्ति तेरी सहायता कर सकते हैं।

20 אֶל-תִּשְׁאַף לִלְלָהּ לְעֹלֹת עַמִּים תְּחַתֶּם:  
 नहीं ललचा रात-का चढ़ने-के-लिए लोगों-को उनकी-जगह-से  
 H8478 H5927 H3915 H0408

तू रात के आने की इच्छा मत कर जब लोग रात में छिप जाने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर से छिप सकते हैं।

21 הַשְׂמֵר אֶל-תְּמוֹן אֶל-אֲוֹן כִּי-עַל-זֶה בְּחַרְתָּ מֵעֵנִי  
 सावधान-रह नहीं मुड़ की-और अधर्म पर कि यह चुना-तूने दुख-से  
 H6040 H0977 H2088 H0205 H0413 H6437 H0408 H8104

अस्यूब, बुरा काम करने से तू सावधान रह। तुझ पर विपत्तियाँ भेजी गई हैं ताकि तू पाप को ग्रहण न करे।

22 הֵן-אֵל יִשְׁרָאֵל בְּכֹחוֹ מִי כְמוֹהוּ מוֹרֵה:  
 देखो ईश्वर ईश्वर है ऊँचा-है शक्ति-अपनी-से कौन उसकी-तरह शिक्षक  
 H3644 H4310 H7682 H0410 H2005

“देख, परमेश्वर की शक्ति उसे महान बनाती है। परमेश्वर सभी से महानतम शिक्षक है।

23 מִי-פָקַד עָלָיו פְּקַד נִיּוּן וְיָמִי-אָמַר פְּעַלְתָּ עוֹלָה:  
 किसने नियुक्त-किया उस-पर मार्ग-उसका और-किसने कहा किया-तूने अधर्म  
 H6466 H0559 H4310 H1870 H4310

परमेश्वर को क्या करना है, कोई भी व्यक्ति सको बता नहीं सकता। कोई भी उससे नहीं कह सकता कि परमेश्वर तूने बुरा किया है।

24 זָכַר-כִּי-תִשְׁבִּיאַ פְּעָלָיו אֲשֶׁר שָׁרְרוּ אֲנָשִׁים:  
 याद-कर कि बड़ाई-कर कार्य-उसके जिसका गाया मनुष्यों-ने  
 H0376 H7891 H6467 H7679 H2142

परमेश्वर के कर्मों की प्रशंसा करना तू मत भूल। लोगों ने गीत गाकर परमेश्वर के कामों की प्रशंसा की है।

25 כָּל-אָדָם חָזוּ-בּוֹ אֲנֹשׁ בּוֹ אֲנֹשׁ מִרְחֹק:  
 सब मनुष्य देखते-हैं उसे मनुष्य निहारता-है दूर-से  
 H7350 H5027 H0582 H2372 H0120 H3605

परमेश्वर के कर्म को हर कोई व्यक्ति देख सकता है। दूर देशों के लोग उन कर्मों को देख सकते हैं।

26 הֵן-אֵל יִשְׁרָאֵל שָׁנָיו וְלֹא-חֶסֶד גִּנְתָּ וְלֹא-חֶסֶד  
 देखो ईश्वर बड़ाई और-नहीं और-नहीं वर्षों-उसके-की गिनती जानते-हैं और-नहीं खोज  
 H2714 H3808 H8141 H4557 H3045 H3808 H7689 H0410 H2005

यह सच है कि परमेश्वर महान है। उसकी महिमा को हम नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर के वर्षों की संख्या को कोई गिन नहीं सकता।

27 כִּי-יִגְרַע נְטֵפִי-מִיָּם יִזְקוּ מִטָּרַר לְאָדָּם:  
 कि खींचता-है बूंदों-की पानी-की छानते-हैं वर्षा गिनती-हैं वर्षा कोहरे-उसके-लिए  
 H0108 H4306 H2212 H4325 H1639

“परमेश्वर जल को धरती से उपर उठाता है, और उसे वर्षा के रूप में बदल देता है।

28 אֲשֶׁר- יוֹלוּ שְׁחֻקִים יִרְעֻפוּ וְעָלִי אָדָם רַב:  
 जो बहते-हैं बादल टपकते-हैं पर मनुष्य बहुत

[H0120](#)

[H7491](#)

[H7834](#)

[H5140](#)

परमेश्वर बादलों से जल बरसाता है, और भरपूर वर्षा लोगों पर गितरी हैं।

29 אֵף אִם- יִבִּין מִפְּרִשֵׁי- עֵב גְּשָׁמוֹת סִכְתּוֹ:  
 भी यदि समझेगा बिछाने-को बादलों-के गर्जना मंडप-उसके-की

[H5521](#)

[H8663](#)

[H5645](#)

[H4666](#)

[H0995](#)

[H0637](#)

कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता कि परमेश्वर कैसे बादलों को बिखराता है, और कैसे बिजलियाँ आकाश में कड़कती हैं।

30 הֵן- פָּרַשׁ עָלָיו אֹרֹן וְשָׂרֵי הַיָּם כָּסָה:  
 देखो फैलाता-है उस-पर ज्योति-अपनी और-गहराइयों-को समुद्र-के ढका-देता-है

[H3680](#)

[H3220](#)

[H8328](#)

[H0216](#)

[H6566](#)

[H2005](#)

देख, परमेश्वर कैसे अपनी बिजली को आकाश में चारों ओर बिखेरता है और कैसे सागर के गहरे भाग को ढक देता है।

31 כִּי- בָּם יָרִין עַמִּים יִתֵּן- אֶכְלָ לְמַכְבִּיר:  
 कि उनसे न्याय-करता-है लोगों-का देता-है भोजन बहुतायत-से

[H4342](#)

[H0400](#)

[H5414](#)

[H1777](#)

परमेश्वर राष्ट्रों को नियंत्रण में रखने और उन्हें भरपूर भोजन देने के लिये इन बादलों का उपयोग करता है।

32 עַל- כַּפַּיִם כָּסָה- אֹרֹן וַיִּצֹו עָלֶיהָ בְּמַפְּיָע:  
 पर हथेलियों ढकता-है ज्योति-को और-आदेश-देता-है उस-पर निशाने-से

[H6293](#)

[H6680](#)

[H0216](#)

[H3680](#)

[H3709](#)

परमेश्वर अपने हाथों से बिजली को पकड़ लेता है और जहाँ वह चाहता है, वहाँ बिजली को गिरने का आदेश देता है।

33 יָנִיד עָלָיו רָעוּ מִקְנֵה אֵף- עוֹלָה:  
 बताती-है उसके-बारे-में गर्जना-उसकी भी पशु पर उठती-हुई

[H5927](#)

[H0637](#)

[H4735](#)

[H7452](#)

[H5046](#)

गर्जन, तूफान के आने की चेतावनी देता है। यहाँ तक की पशू भी जानते हैं कि तूफान आ रहा है।